



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-06.12.2022

थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा 02 नफ़र वांछित चैन-रनैचर 1-सुनीता व 2-करिश्मा कुल 790/- रु. नकद के साथ गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के पर्यवेक्षण में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 290/2022 धारा 392/411 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्तागण 1.सुनीता पत्नी संजय कुमार निवासिनी ताजपुर थाना चिरैया कोट जनपद मऊ 2.करिश्मा पत्नी राजकुमार निवासिनी नरेन्द्रपुर पट्टी थाना सरपतहा जिला जौनपुर को आज दिनांक-06.12.2022 को काली माता मन्दिर के पास से समय 13.15 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 790/- रु. नकद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 26.09.2022 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सरिता पत्नी गिरिजेश यादव निवासीनी रामपुर उकथी थाना चौबेपुर वाराणसी ने कुछ अज्ञात महिलाओं द्वारा आटो में बैठकर व रास्ते में आटो रूकवाकर उनके गले का चैन छीनकर भाग जाने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर में मु0अ0सं0 290/22 धारा 392 भा.द.वि पंजीकृत कर, विवेचना उ0नि0 लवकुश यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

- 1.सुनीता पत्नी संजय कुमार निवासिनी ताजपुर थाना चिरैया कोट जनपद मऊ उम्र करीब 42 वर्ष।
- 2.करिश्मा पत्नी राजकुमार निवासिनी नरेन्द्रपुर पट्टी थाना सरपतहा जिला जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष।

विवरण पूछताछ-

दोनों अभियुक्ताओं ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग लगभग दो माह पूर्व काली माता मन्दिर से पाण्डेयपुर आते समय टैम्पो में बैठी एक महिला का चैन छीन लिये थे। जिसमें हमारे साथ की दो महिलाएँ मौके पर ही पकड़ ली गयी थी। पकड़े जाने के डर से हम लोग चैन को रास्ते में चलती फिरती महिलाओं को औने-पौने दाम पर बेच दिये थे। जौ पैसा मिला था उसी पैसे में से दोनो को जेल से छुड़वाने के लिये आधा पैसा अपने वकील को दे दिये थे तथा शेष बचे पैसे हम दोनों आपस में बाट लिये थे। खाने पीने तथा सामान आदि खरीदने में कुछ पैसा खर्च हो गया बस यही बचा हुआ है।

बरामदगी का विवरण- कुल 790/- रुपये नगद बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 लवकुश यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2.हे0का0 हरिवंश राम थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 3.म0का0 कुसुमलता यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 4.म0का0 कुमारी मीरा प्रसाद थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

